

AJ-1255
B.Com. (Part-III)
Term End Examination, 2021-22
AUDITING (Paper-II)

Time : Three hours]

[Maximum Marks : 75

नोट— सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Answer all questions. All questions carry equal marks.

इकाई-I/Unit-I

1. अंकेक्षण की परिभाषा दीजिए एवं इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
Define Auditing and highlight its importance.

अथवा/OR

अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? यह किस प्रकार तैयार किया जाता है? इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए।
What is Audit programme? How is it prepared? Explain its important characteristics.

इकाई-II/Unit-II

2. आंतरिक निरीक्षण क्या है? इसके उद्देश्यों एवं लाभों को बताइये।
What is internal check? State its objectives and advantages.

अथवा/OR

आंतरिक नियंत्रण से क्या आशय है? आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक निरीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
What is meant by internal control? Differentiate between internal control and internal check.

इकाई-III/Unit-III

3. कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है? इसके दायित्वों का वर्णन कीजिए।
What are the provisions regarding to the appointment of an auditor of a company? Describe his liabilities.

अथवा/OR

एक बैंकिंग कम्पनी के अंकेक्षण में जिन मुख्य बातों पर ध्यान देंगे उनकी विस्तार से विवेचना कीजिए।
Discuss in detail the special point you would take into consideration while auditing the account of a banking company.

इकाई-IV/Unit-IV

4. सम्पत्तियों के सत्यापन से आप क्या समझते हैं? सत्यापन के क्या उद्देश्य हैं?
What is meant by verification of assets? What are the objects of verification?

अथवा/OR

अनुसंधान क्या है? यह अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है?
What investigation? How does it differ from auditing?

इकाई-V/Unit-V

5. लागत अंकेक्षण क्या है? लागत अंकेक्षण के उद्देश्यों एवं लाभों को बताइए।
What is Cost Audit? Explain the object and advantages of Cost Audit.

अथवा/OR

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

Write short notes on any two—

(i) सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit),

(ii) प्रबंध अंकेक्षण (Management Audit),

(iii) अंकेक्षण समितियाँ (Audit Committees),

(iv) कर अंकेक्षण (Tax Audit).